



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)

PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 197]
No. 197]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 11, 1980/आषाढ़ 20, 1902
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 11, 1980/ASADHA 20, 1902

इस भाग में विभिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 1980

सीमाशुल्क

सा० का० नि० 404 (घ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, फिल्मों को, जब उनका आयात भारत में किया जाए, केन्द्रीय सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण सीमाशुल्क और द्वितीय उल्लिखित अधिनियम की धारा 3 के अधीन उद्ग्रहणीय प्रतिरिक्त सीमाशुल्क से इस शर्त के अधीन रहते हुए छूट देती है कि ऐसी फिल्मों की निकासी के समय सहायक सीमाशुल्क कलक्टर के पास भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय का यह प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाए कि ऐसा निर्यात लोकहित में है और ऐसी फिल्मों का प्रयोग केवल निर्दिष्ट पुरालेख अध्ययन या अभिलेख या निर्वेश के प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इसका प्रयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा।

[सं० 139/का०सं० 466/19/79-सी०शु० V]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 11th July, 1980

CUSTOMS

G.S.R. 404(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts films, when imported into India, from the whole of the duty of customs leviable thereon under the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), and the additional duty leviable under section 3 of the second mentioned Act, subject to the condition that a certificate from the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting is produced to the Assistant Collector of Customs at the time of clearance of such films to the effect that such importation is in the public interest and that such films shall be used only for restricted archival study or record and reference purposes and shall not be used for any other purpose.

[No. 139/F. No. 466/19/79-Cus. V]

सा० का० नि० 405 (घ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1980 (1980 का 13) की धारा 4 की उपधारा (4) के साथ पठित, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 41-सीमाशुल्क

तारीख 25 मार्च, 1980 का निम्नलिखित और संशोधन करती है,
अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना से उपाखण्ड अनुवृत्ति में क्रम सं० 250 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा,
अर्थात्:—

“251 सं० 139 सीमाशुल्क, तारीख 11-7-1980”।

[सं० 140/फा० सं० 468/19/79-सी०शु० V]

एस० बासु, प्रवर सचिव

G.S.R. 405(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52

of 1962), read with sub-section (4) of section 4 of the Finance Act, 1980 (13 of 1980), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 41-Customs, dated the 25th March, 1980, namely:—

In the Schedule annexed to the said notification, after Serial No. 250 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:—

“251 No. 139-Customs, dated the 11th July, 1980”.

[No. 140/F. No. 468/19/79-Cus. V]

S. BASU, Under Secy.